

I2U2 पहल

प्रलिमिस के लिये:

I2U2 पहल, अब्राहम समझौता, QUAD

मेन्स के लिये:

समूह और समझौते भारत को शामिल करते हैं और/या भारत के हतों को प्रभावित करते हैं

चर्चा में क्यों?

I2U2 पहल के एक भाग के रूप में भारत, इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जुलाई 2022 में अपना पहला आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे।



I2U2 पहल:

- पृष्ठभूमि:

- शुरुआत में I2U2 का गठन अक्टूबर 2021 में इज़रायल और यूएई के बीच अब्राहम समझौते के बाद किया गया था, ताकि इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढाँचे और परविहन से संबंधित मुद्दों से निपटा जा सके।
 - उस समय इसे 'आर्थिक सहयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय मंच' कहा जाता था।

- इसे 'वेस्ट एशिन क्राउड' भी कहा जाता था ।
- परचिय:
 - I2U2 पहल भारत, इजरायल, यूएसए और यूएई का एक नया समूह है ।
 - समूह के नाम में 'I2' का अर्थ भारत और इजरायल है, जबकि 'U2' का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात है ।
 - यह एक बड़ी उपलब्धि है जो इस क्षेत्र में होने वाले भू-राजनीतिक परिवर्तनों को दर्शाती है ।
 - यह न केवल दुनिया भर में गठबंधन और साझेदारी की प्रणाली को पुनर्जीवित एवं फरि से सक्रिय करेगा, बल्कि उन साझेदारियों को भी जोड़ देगा जो पहले मौजूद नहीं थीं या पूरी तरह से उपयोग नहीं की गई थीं ।
- महत्त्व:
 - सुरक्षा सहयोग:
 - इससे देशों को इन नए समूहों के ढाँचे के भीतर चार देशों के बीच सुरक्षा सहयोग तलाशने में मदद मिलेगी ।
 - तकनीकी केंद्र:
 - इनमें से प्रत्येक देश एक तकनीकी केंद्र है ।
 - जैव प्रौद्योगिकी निश्चित रूप से इन देशों में से प्रत्येक में प्रमुख है ।
 - खाद्य सुरक्षा:
 - यह पहल खाद्य सुरक्षा पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है ।
 - वभिन्न क्षेत्रों में एक साथ कार्य:
 - ये देश कई स्तरों पर सहयोग कर सकते हैं, चाहे वह तकनीक हो, व्यापार हो, जलवायु हो, कोविड-19 के खलिफ लड़ाई हो या सुरक्षा ।

भारत के लिये I2U2 का महत्त्व:

- अब्राहम समझौते से लाभ:
 - भारत को संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब राज्यों के साथ अपने संबंधों को जोखमि में डाले बना इजरायल के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लिये अब्राहम समझौते (**Abraham Accords**) का लाभ मिलेगा ।
- बाज़ार को फायदा:
 - भारत एक विशाल उपभोक्ता बाज़ार है । यह उच्च तकनीक और अत्यधिक मांग वाले सामानों का भी एक बड़ा उत्पादक स्थान है । इस गुप्तगंगे से भारत को फायदा होगा ।
- गठबंधन:
 - यह भारत को राजनीतिक और सामाजिक गठबंधन निर्माण करने में मददगार साबति होगा ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/i2u2-initiative>